

AGREEMENT No- 18/ mnmsy (ST) SBD/2020-21

Schedule XLV-Form No. 134

NAME OF WORK:- RED SACK TO FULBHARA

R.MD (WD) KISHANGANGA - 2 DIVISION

THAKURGANGA SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

MR No-1115

NAME OF AGENCY:- SEEMA PERMITS

प्रमाणित किया जाता है कि इस माप पुस्त में कुल 100
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ हैं। जो...अभीत... रहायक दास
सहायक अभियंता, ग्रा०का०वि० कार्य अवर प्रमण्डल...ठाकुरगंज
के नाम से निर्गत किया जाता है।

20/7/20

कार्यपालक अभि
ग्रा०का०वि० कार्य प्रमण
किसानगंज-2
20/7/20

20/7/20

Sch. XLV—Form No. 134

RWD(WD)KISHANGANG-2 DIVISION

THAKURGANG SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1115

Name of Officer श्री अभीत कुमार दास (सहायक

अभियंता ग्रा०का० वि० ठाकुरगंज

Date of first entry _____

Date of last entry _____

1st^{um}/A/C Bill

1

Name of work—

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1st on A/C Bill				
N/W →	Const. of fixing of				
	Working benchmark				
	Pit				
N/W →	Const. of road				
	from R.E.O Sadak				
	TO FULBhasa at				
	Thakergaj & Kishangej				
N/Agency	- SH EMA PARWEEN				

Agrent No- 48/MY GSY (ST)/SRD/
20-21
Dt. of start - 27-09-20
Dt. of comp. - 26-04-21
Rate Quoted - 0.05-1.

	Reord Entry				
(1)	providing and				
	fixing Working				
	of benchmark				
	pillar all compo				
	1x0.700km = 0.70km				
(2)	providing and				
	fixing Working				
	of Reference pillar				
	all compo				

Continuation
1x0.700km = 0.70km

ABST.

7

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	<u>ABSTRACT OF COST</u>				
	<u>X</u>				
(1/1) Providing and laying Working of Benchmark pillar all up					
vide TMB P.N-01					
Rate (1) = 0.700 km					
@ RS = 3972.91/m					
					RS = 2781 = 0
(2/2) Providing and fixing Working of Reference					
pillar all up					
vide TMB P.N-01					
Rate (2) = 0.70 km					
@ RS = 1787.89/m					
					R = 1252 = 0
(3/3) clearing and grubbing road land and all up					
vide TMB P.N-2					
Rate (3) = 1721 Hq.					
Limit = 0.16 Hq.					
@ RS = 51133.26/Hq. 28181 = 0					
(4/22) E.M EXCAV. for found. for structure all up					

Continuation

C.O. B = 12214 = 0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Vide TMB Pat- (2)					
qte (4) = 30.44 m ³					
limit = 29.80 m ³					
@ RS 269.32/m ³ R = 8026 = 0					
(5/23) prov. and laying					
MIS pcc as					
levelling course					
all up					
Vide TMB pat (2)					
qte (5) = 3.01 m ³					
limit = 2.96 m ³					
@ RS 5650.84/m ³					
					RS = 16726 =
(6/24) providing concrete					
for plain/reinforced					
concret in open					
foundation all					
up					
Vide TMB pat (3)					
qte (2) = 31.61 m ³					
limit = 30.61 m ³					
@ R = 6364.60/m ³					
					R = 194820 = 0
(7/5) prov. and laying					
RCC pipe MPB					
for culverts					
Vide TMB pat (3)					

qte (1) = 75.0 m

@ RS 4101.04/m R = 30758

C.O. B = 26254

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(8/4) Const. of Embankment with app Mat. for broad pits all cell 100m length. vide TMB PN-④ as per E/W QTY sheet $= 796.25 \text{ m}^3$ @ R 177 $141.56/\text{m}^3$ $B = 112788 =$					
(9/5) Const. of Subgrade and Shoulder all cell vide TMB PN-④/⑤ at ① $= 2050.28 \text{ m}^3$ limit $= 1998.28 \text{ m}^3$ @ R 177 $172.02/\text{m}^3$ $B = 353835 =$					
(10/6) Const. of Granular sub-base and Graveling - 1 Mat. all cell vide TMB PN-⑤ at ② $= 590.81 \text{ m}^3$ limit $= 567.00 \text{ m}^3$ @ R 2072 $2072.55/\text{m}^3$ $B = 117586 =$ 11751362					

Continuation

C. O. B = 1904303

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(11/7) prov. laying, spreading and compacting stone cbrt WBM-III all cbrt vide TMB PM-6 qt (5) = 199.13 m ³ limit = 196.88 m ³ @ Rs. 4736.64/m ³ Rs. 932550=					
(12/13) prov. and laying RCC pipe dia 300 mm dia across th vide TMB PM-6 qt (1) = 23.0 m ³ @ Rs. 850.76/m ³ Rs. 19567=0					
(13/2) prov. and fixing Logo of MMAS project. all cbrt vide TMB PM-6 qt (3) = 3.0 m ³ @ Rs. 9279.90/m ³ Rs. 27840=					
C. O. Rs. 2884260=					
Less 0.05% ASPA = 1442=					
C. O. Rs. 2882818					

Continuation

Continuation